

विज्ञप्ति

जामिया मिल्लिया इस्लामिया में टेड-जेएमआई वार्ता

विश्वविख्यात टेडक्स :टीईडी: ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्रों को "टेडक्स-जेएमआई" वार्ता आयोजित करने का अधिकार दिया है। यह आयोजन 16 अक्टूबर को विश्वविद्यालय के एम ए अंसारी सभागार में होगा जिसमें देश के अपने अपने क्षेत्र के जाने माने लोग हिस्सा लेंगे।

टेड :टीईडी, यानी टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, डिज़ाइन: एक मीडिया संगठन जो "फैलाने लायक विचारों" पर आनलाइन वार्ताओं का आयोजन करता है। 1984 में स्थापित टेड 1990 से साल में दो वार्ता सम्मेलन आयोजित करता है जिसमें दुनिया के विशिष्ट लोग विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार रखते हैं।

जामिया मिल्लिया में होने वाले "टेडक्स-जेएमआई" में फिल्मकार और पत्रकार कविता बहल, व्योम बायोसाइंसेज़ के सह संस्थापक डा राजेश एस गोखले, वैज्ञानिक, जेएनयू में प्रोफेसर और भारतीय विज्ञान अकादमी के अध्यक्ष प्रो रामकृष्ण रामास्वामी, शेफ, ब्लागर एवं ग्राफिक डिज़ाइनर सदफ़ हुसैन, वरिष्ठ पत्रकार सईद नकवी, गांधी फेलोशिप प्रोग्राम के प्रोग्राम डायरेक्टर विवके शर्मा और युवा उद्यमी तथा इन्फ्रीडो के संस्थापक तन्मय जैन जैसे जाने माने लोग हिस्सा लेंगे।

'टेडक्स-जेएमआई' की शुरुआत इस विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच विभिन्न क्षेत्रों के नवीनतम ज्ञान को प्रसारित-प्रचारित करने के इरादे से हुई है। इसका उद्देश्य दुनिया भर के नवीनतम ज्ञान को साझा करना है। इसका आयोजन जेएमआई का एक उत्साही समूह कर रहा है और टेडक्स ने उसे ऐसा करने की औपचारिक अनुमति दी है।

टेडक्स एक गैर लाभकारी संगठन है जो नवीनतम विचारों का प्रसार करने के लिए समर्पित है। इसके सम्मेलनों में बिल गेट्स, जेन गुडॉल, एलिज़ोबेथ गिल्बर्ट, सर रिचर्ड ब्रानसन, नंदन नीलेकनी, फिलिप स्टार्क, नोगोज़ी ओकोनोजो इवाला, इसाबेल ऑलेंड और ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री गॉर्डन ब्राउन शामिल हैं।

Dr. Saima Saeed

Media Coordinator